

## 171497 - क्या यात्रा से पहले कुर्आन की कोई विशिष्ट सूरात पढ़ना सुन्नत में साबित है

### प्रश्न

मैं ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पढ़ी है कि उन्होंने ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “जब तुम यात्रा पर निकलने का इरादा करो तो तुम्हें सूरातुल काफिरून, सूरातुन्नस्र, सूरातुल इख्लास, सूरातुल फलक़ और सुरतुन-नास पढ़ना चाहिए, किंतु एक ही बार में बिस्मिल्लाह से शुरू करो और बिस्मिल्लाह पर अंत करो।” इसलिए मैं कुर्आन और हदीस की रोशनी में इसके उत्तर का ज़रूरतमंद हूँ।

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

प्रश्न में वर्णित हदीस के शब्द यह हैं

:

जुबैर बिन मुत्ज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने

कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“ऐ जुबैर ! क्या तुम

इस बात को पसंद करते हो कि जब तुम यात्रा पर निकलो तो रूप व आकार में अपने साथियों में सबसे निराले हो, और उनसे अधिक तोशा वाले हो ? तो मैं ने कहा : हाँ,

मेरे मां बाप आप

पर कुर्बान हों। आप ने फरमाया :

“तुम इन पाँच सूरातों को पढ़ो :

“कुल या अय्योहल काफिरून”, “इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि

वल फत्हो”,

“कुल हुवल्लाहो अहद”,

“कुल अऊज़ो बि-रब्बिन्नास”,

“कुल अऊज़ो बि-रब्बिल फलक़”, तथा हर सूरात को

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आरंभ करो और अपनी क़िराअत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

पर अंत करो।” जुबैर ने कहा : मैं मालदार और बहुत धन वाला था,

चुनांचे मैं अल्लाह

जिसके साथ चाहता था यात्रा पर निकलता था तो मैं उनमें सबसे खराब रूप व आकार वाला होता

था और सबसे कम तोशे वाला होता था,

तो जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें ये सूरतें सिखाई

हैं और मैं ने इन्हें पढ़ी हैं: तो मैं उन में सबसे अच्छा रूप व आकार वाला और सबसे अधिक

तोशे वाला होता हूँ यहाँ तक कि मैं अपने उस सफर से वापस आ जाऊँ।”

इसे अबू याला ने अपनी मुसनद (13/339,

हदीस संख्या :

7419) में रिवायत किया है।

यह एक ज़ईफ हदीस है,

इसके अंदर अज्ञात

(मजहूल) रावी हैं।

हैसमी ने

“मजमउज़्ज़वाइद” (20/134) में इस के बारे

में फरमाया है: इस में ऐसे रावी हैं जिन्हें

मैं नहीं जानता हूँ।”.

तथा शैख अल्बानी ने

“अस्सिलिसिला अज़्ज़ईफा” (हदीस संख्या :

6963) में इस हदीस के बारे में फरमाया : यह मुंकर है।

इस आधार पर इस हदीस से सफर से पहले कुर्आन

पढ़ने के मुस्तहब होने पर दलील पकड़ना शुद्ध नहीं है,

जिस तरह कि उस से

सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने के मसअले पर दलील पकड़ना ठीक नहीं है।

तथा प्रश्न संख्या : (149125) का उत्तर

देखें।